



Additional Information for Metric No. 6.4.3

6.4.3 Institutional strategies for mobilization of funds and the optimal utilization of resources

INDEX

Sr. No.	Name of Document	Page No.
1	Committees	2
2	Annual Budget	3
3	Audit Report	15



Mula Education Society's
ARTS, COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, SONAI
Tal. Newasa, Dist- Ahmednagar – 414105



Ph.: 02427-299384 Email: sonaicollege@yahoo.co.in, mesacsccollege@gmail.com Web.:www.acscollegesonai.edu.in
Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune (I.D.PU/AN/ASC/031/1989)
NAAC Re-accredited with 'A' Grade, DBT Star College Scheme, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 Certified, AISHE Code – C-42096

Committees

Purchase Committee and Library Development Committee, in close coordination with the CDC and the IQAC makes annual budget, monitors the mobilization of funds and makes sure that the funds are spent for the purpose for which they have been allocated. The formation of Committees are given in our website

The links of these committees is given below

<https://acscollegesonai.edu.in/committees/>



Mula Education Society's
ARTS, COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, SONAI
Tal. Newasa, Dist- Ahmednagar – 414105



Ph.: 02427-299384 Email: sonaicollege@yahoo.co.in, mesacsccollege@gmail.com Web.:www.acscollegesonai.edu.in
Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune (I.D.PU/AN/ASC/031/1989)
NAAC Re-accredited with 'A' Grade, DBT Star College Scheme, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 Certified, AISHE Code – C-42096

BUDGET 2022-23

महाविद्यालयाचे नाव : कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई
(दि. १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)

अंदाजपत्रक २०२२-२३

विद्यार्थी संख्या

वर्ष	प्रवेश क्षमता			अंदाजे प्रवेश			
	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान	एकूण
प्रथम	१२०	१२०	१२०	११५	१२०	११७	३५२
द्वितीय	१२०	१२०	१२०	११६	११८	११५	३४९
तृतीय	१२०	१२०	१२०	११८	११६	१२०	३५४
एकूण	३६०	३६०	३६०	३४९	३५४	३५२	१०५५

अ नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ नं	खर्च तपशिल	रक्कम
	आरंभीची शिल्लक	१५६१९७८	१	सेवक पगार	६७२६०७७४
१	१. रोख =	०	२	फर्निचर खरेदी	२०००००
२	२. बँक =	०	३	संलग्नीकरण खर्च	१०००००
३	विद्यार्थी फी येणे -	२४२२५	४	ऑडिट फी	४००००
४	विद्यार्थी X प्रतिवर्षी फी = एकूण	३९९६२३५	५	इमारत विमा	६००००
५	पगार अनुदान	६६९६०७७४	६	इमारत कलर व दुख्खती खर्च	५०००००
६	कमवा व शिका योजना अनुदान	२०००००	७	क्रिडा स्पर्धा खर्च	१०००००
७	बोनाफाईड फी	२०००००	८	इंटरनेट खर्च	१०००००
८	दाखला फी	१०००००	९	वाहतुक खर्च	१०००००
९	जर्नल फी	१२०००००	१०	संगणक व प्रिंटर खरेदी खर्च	१०००००
१०	सामाजिक संस्था खाजगी संस्था योगदान	१५०००००	११	कमवा व शिका योजना खर्च	२०००००
१२	डी.बी.टी. स्टार कॉलेज	११०००००	१२	विद्युत् खर्च	४०००००
१३	विद्यार्थी परिक्षा फी	१७०००००	१३	विद्यार्थी उपक्रम	१०००००
१४	अंदाजपत्रकीय तुट	१८५७४३४	१४	वृक्ष संवर्धन व बगिचा खर्च	५००००
			१५	प्रयोगशाळा खर्च	५०००००
			१६	गंधालय पुस्तके खर्च	२०००००
			१७	वर्तमानपत्रे खर्च	२०००००
			१८	नॅक खर्च	१०००००

अ नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ नं	खर्च तपशिल	रक्कम
			१९	नियतकालीके खर्च	४५०००
			२०	पोस्टेज खर्च	२०००
			२१	छपाई व स्टेशनरी खर्च	४०००००
			२२	दुरूस्ती खर्च	९५०००
			२३	इमारत भाडे	९५०००
			२४	टेलीफोन खर्च	१००००
			२५	प्रवास खर्च	११५०००
			२६	सेमिनार खर्च	१४५०००
			२७	विद्यापीठ शेअर	३४५०००
			२८	कॉमर्स प्रॅक्टिकल	१५०००
			२९	स्नेहसम्मेलन खर्च	१८५०००
			३०	जिमखाना खर्च	२९५०००
			३१	ओळखपत्र खर्च	७५०००
			३२	प्रयोग वही	२०००००
			३३	विद्यापीठ परिक्षा फी	१५०००००
			३४	डी.बी.टी. स्टार कॉलेज	११०००००
			३५	सारस्वत छपाई खर्च	१४५०००
			३६	पर्यावरण विभाग विषय खर्च	४५०००
			३७	कॉलेज वेबसाइट खर्च	१४५०००
			३८	शिपाई गणवेश व धुलाई भत्ता	२५०००
			३९	एअर कन्डीशनर	५५०००
			४०	बॉटनिकल गार्डन खर्च	५५०००
			४१	आय.एस.ओ.१००१ खर्च	१०००००
			४२	इमारत व परिसर व स्वच्छता देखभाल	१९००००
			४३	एन.सी.सी खर्च	२५०००
			४४	अग्निशमक यंत्रणा रिफिलिंग	१५०००

अ नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ नं	खर्च तपशिल	रक्कम
			४५	आयकर खर्च	२००००
			४६	प्रस्ताव खर्च	२५०००
			४७	इनक्युवेशन इनोव्हेशन स्टार्टअप खर्च (As Par	७७११९५
			४८	बील देणे	२८६६७७
			४९	कन्सलन्टन्सी फी खर्च	२५०००
			५०	माजी विद्यार्थी मेळावा खर्च	५००००
			५१	सामाजिक संस्था खाजगी संस्था	१०००००
			५२	शैक्षणिक पायाभुत सुविधा	२०००००
			५४	प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट खर्च	४५०००
			५६	प्रशिक्षण व अभ्यास दौरा खर्च	९५०००
			५८	सांस्कृतीक कार्यक्रम खर्च	४५०००
			५९	आयक्युसी खर्च	१०००००
			६०	सॉफ्टवेअर खर्च	२५०००
			६१	अतीथी खर्च	५५०००
			६२	जाहीरात खर्च	३५०००
			६३	इलेक्टिक खर्च	२०००००
			६४	रिसर्च प्रमोशन खर्च	२०००००
			६४	अकस्मित खर्च	५००००
				एकुण खर्च	७७७९०६४६
				एकुण शिल्लक	०
	एकुण	७७७९०६४६		एकुण	७७७९०६४६

प्राचार्य

मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
ता. नेवसा, जि. अहमदनगर-414105

महाविद्यालयाचे नाव : कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई

अंदाजपत्रक (दि.१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)


विना अनुदानित विभाग (यु.जी व पी.जी विभाग)

विद्यार्थी संख्या

वर्ष	प्रवेश क्षमता			अंदाजे प्रवेश			
	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान	एकूण
प्रथम पी.जी	१८०	६०	१४४	४८	६०	१२५	२३३
द्वितीय पी.जी	१८०	६०	७२	५५	८०	१३०	२६५
प्रथम यु.जी	२४०	१२०	१२०	१२५	६०	३२	२१७
द्वितीय यु.जी	१२०	०	१२०	६०	४०	३०	१३०
एकूण	७२०	२४०	४५६	२८८	२४०	३१७	८४५

अ नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ नं	खर्च तपशिल	रक्कम
१	रोख : - २१९२	४०९८८६३	१	सेवक पगार	४७५००००
२	बँक : - ४०९६६७१		२	मानधन खर्च	९५००००
३	विद्यार्थी फी येणे	३४७५६०	३	फर्निचर खरेदी खर्च	२०००००
४	विद्यार्थी X प्रतिवर्षी फी = एकूण	१५७३३७६०	४	कार्यालयिन स्टेशनरी खर्च	१०००००
५	M.A I 48X 16090=772320		५	इनव्हर्टर बॅटरी खर्च	२५००००
६	M.A II 55X7550=415250		६	इलेक्ट्रीक खर्च	१०००००
७	M.Com I 60X=21090 =1265400		७	सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरा खरेदी खर्च	३५००००
८	M.Com II 80 X=7550 =604000		८	विज बिल खर्च	९००००
९	M.Sc I 125X =36970 =4621250		९	यश इनोव्हेशन इनकुबेशन केन्द्र	१०००००
१०	M.Sc II 130 X 29750 =3867500		१०	ऑडीट फी	४५००
११	F.Y.B.A. 125X12020=1502500		११	औदयोगिक क्षेत्रास भेट	६००००
१२	S.Y.B.A. 60X6165 =369900		१२	प्रयोगशाळा केमीकल खरेदी खर्च	९०००००
१३	F.Y.B.Com 60X14020=841200		१३	ग्रंथालय पुस्तके खरेदी खर्च	५००००
१४	S.Y.B.Com 40 X6120=244800		१४	विद्यापीठ शेअर	३०००००
१५	F.Y.B.Sc 32X22920=733440		१५	बहिस्थ प्राध्यापक मानधन	३००००

अ नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ नं	खर्च तपशिल	रक्कम
१६	S.Y.B.Sc 30X16540=496200		१६	संगणक व प्रिंटर खरेदी खर्च	८५००००
१७	बँक व्याज	५००००	१७	प्रयोगशाळा उपकरणे खरेदी खर्च	९०००००
			१८	भविष्य निर्वाह निधी संस्था हिस्सा	५५००००
			१९	इमारत बांधकाम खर्च	३५०००००
			२०	शिक्षकेतर मानधन खर्च	३००००
			२१	गॅज्युइटी खर्च	२०००००
			२२	वील देणे	९८६११९
			२३	अॅडमिन चार्जेस पी.एफ	३५०००
			२४	भविष्य निर्वाह मॅनेजमेंट चार्जेस	३५०००
			२५	अग्नी सुरक्षा खर्च	१५०००
			२६	जाहीरात खर्च	१५०००
			२७	पर्यावरण व्यवस्थापन खर्च	५००००
			२८	सॉफ्टवेअर खर्च	२०००
			२९	अकस्मित खर्च	२५०००
				एकुण खर्च	१५४२७६१९
				एकुण शिल्लक	४८०२५६४
	एकुण	२०२३०१८३		एकुण	२०२३०१८३



मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
 वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
 जसा, जि.अहमदनगर-414105

महाविद्यालयाचे नाव : कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई

(दि.१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)

विना अनुदानित विभाग (बीबीए .विभाग)

विद्यार्थी संख्या

वर्ष	प्रवेश क्षमता	अंदाजे प्रवेश
प्रथम	६०	६०
द्वितीय	६०	२८
तृतीय	६०	३०
एकूण	१८०	११८

अ.नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ.नं	खर्चाचा तपशिल	रक्कम
१	आरंभीची शिल्लक	२४५२३२१	१	सेवक पगार	१२०००००
२	१.रोख : ७७=००		२	कार्यालयिन फर्निचर	५००००
३	२.बँक : २४५२२४४=००		३	इलेक्ट्रीक खर्च	४५०००
४	विद्यार्थी फी येणे - २०२१-२२	१०५३१२३	४	गिन बोर्ड खरेदी खर्च	५००००
५	विद्यार्थी एकूण प्रतिवर्ष फी	२६५०६१०	५	संगणक ,प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी खर्च	६००००
६	प्रथम वर्ष ६०X २५९५५=१५५७३००		६	सी . सी . टी व्ही कॅमेरा खर्च (बी . एड इमारत)	१०००००
७	द्वितीय वर्ष २८X १८६९५=५२३४६०		७	ऑडिट फी	४५००
८	तृतीय वर्ष ३०X १८९९५ =५६९८५०		८	औद्योगिक क्षेत्रास भेट	५००००
९	बँक व्याज	८५०००	९	गंथालय पुस्तके खर्च	३००००
			१०	सेमिनार खर्च	३००००
			११	विद्यापीठ शेअर	३००००
			१२	दुरूस्ती खर्च	१०००००
			१३	बहिस्थ प्राध्यापक मानधन	१३०००
			१४	भविष्य निर्वाह निधी संस्था हिस्सा	१३००००
			१५	गॅज्युएटी फंड	१०००००
			१६	अंतर्गत परीक्षा खर्च	३००००
			१७	वृक्षसंवर्धन खर्च	५०००
			१८	सॉफ्टवेअर खर्च	२०००
			१९	आकस्मित खर्च	१००००
				एकूण खर्च	२०३९५००
				शिल्लक	४२०१५५४
	एकूण	६२४१०५४		एकूण	६२४१०५४



मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
कला-वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई
ता.नेवसा, जि.अहमदनगर-४१४१०५

(दि.१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)

विना अनुदानित विभाग (बीसीए. संगणक ऑप्लीकेशन विभाग)

विद्यार्थी संख्या

वर्ष	प्रवेश क्षमता	अंदाजे प्रवेश
प्रथम	८०	८८
द्वितीय	८०	६९
तृतीय	८०	४०
एकूण	२४०	१९७

अ.नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ.नं	खर्चाचा तपशिल	रक्कम
१	आरंभीची शिल्लक	२३९५६६५	१	सेवक पगार	१४००००
२	१.रोख १.००		२	ऑफिस फर्निचर	१००००
३	२.बँक २३९५६६४		३	गिन बोर्ड खरेदी खर्च	६००००
४	विद्यार्थी फी येणे -	२१९०४१५	४	संगणक खरेदी खर्च	८००००
५	विद्यार्थी एकूण प्रतिवर्ष फी	५६७०१९५	५	सी.सी.टी व्ही कॅमेरा खर्च (बी.एड इमारत)	१००००
६	F.Y.BCA 88 X 33755 =2970440		६	इलेक्ट्रीक खर्च	१००००
७	S.Y.BCA 69 X 24695=1703955		७	इमारत दुरुस्ती खर्च (बी.एड इमारत)	५००००
८	S.Y.BCA 40 X 24895=995800		८	विद्यार्थी स्वच्छतागृह खर्च (बी.एड इमारत)	३००००
९	बँक व्याज	१००००	९	इनवर्टर व बॅटरी खर्च	२००००
			१०	विद्यार्थी बेचेस खरेदी	२००००
			११	औदयोगिक क्षेत्रास भेट	५००००
			१२	विद्यार्थीपैठ शेअर	४००००
			१३	ग्रंथालय पुस्तके खर्च	३५०००
			१४	छपाई व स्टेशनरी खर्च	१००००
			१५	सेमिनार व वर्कशॉप खर्च	६००००
			१६	ऑडिट फी	४५००
			१७	अभ्यासकेतर खर्च	१००००
			१८	बहिस्थ प्राध्यापक मानधन	१५०००
			१९	मैदानाची सफाई व दुरुस्ती खर्च	१००००
			२०	जाहिरात खर्च	३५०००
			२१	भविष्य निर्वाह निधी संस्था हिस्सा	१५००००
			२२	गॅज्युएटी फंड	१०००००
			२३	शिपाई गणवेश	२१०००
			२४	संगणकप्रायोगशाळा खर्च	२०००००
			२५	अंतर्गत परीक्षा खर्च	१५०००
			२६	अग्नी सुरक्षा खर्च	६०००

अ.न.	जमा तपशिल	रक्कम	अ.न.	खर्चाचा तपशिल	रक्कम
			२८	बँक चार्जेस	१०००
			२९	वृक्षसंवर्धन खर्च	१००००
			३०	अकस्मित खर्च	१००००
				एकूण खर्च	४६३२५००
				शिल्लक	५७९३७७५
	एकूण	१०३४६२७५		एकूण	१०३४६२७५



मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
 शा. पाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
 ...नेकासा, जि. अहमदनगर-४१४१०५

महाविद्यालयाचे नाव : कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई
 विभागाचे नाव : यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक (B.A. B.Com)
 (दि.१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)

विद्यार्थी संख्या

वर्ष	कला	वाणिज्य	पुर्व तयारी	एकूण
प्रथम	२२०	३०	५	२५५
द्वितीय	२००	४०	०	२४०
तृतीय	१८०	२५	०	२०५
एकूण	६००	९५	५	७००

अ.नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ.नं	खर्चाचा तपशिल	रक्कम
१	आरंभीची शिल्लक	३४५९३३१	१	सेवक मानधन	२०००००
२	१.रोख : ००		२	प्रवास खर्च	५०००
३	२.बँक : ३४५९३३१		३	ऑडीट फी	१७७०
४	विद्यार्थी एकूण प्रतिवर्ष फी	४५८७५०	४	संगणक व प्रिंटर खरेदी खर्च	५००००
५	प्रथम वर्ष बी.ए २२० X ५५० = १२१०००		५	फर्निचर खरेदी	१५०००
६	द्वितीय वर्ष बी.ए २०० X ६५० = १३००००		६	सॉफ्टवेअर खर्च	२०००
७	तृतीय वर्ष बी.ए १८० X ८५० = १५३०००		७	कार्यालयिन स्टेशनरी	२०००
८	प्रथम वर्ष बी.कॉम ३० X ५५० = १६५००		८	रँक खरेदी खर्च	५००००
९	द्वितीय वर्ष बी.कॉम २५ X ६५० = १६२५०		९	अतीथी खर्च	२०००
१०	तृतीय वर्ष बी.कॉम २५ X ८५० = २१२५०		१०	इंटरनेट खर्च	२५००
११	पुर्व तयारी ५ X १५० = ७५०		११	शिक्षकेतर मानधन	२०००००
१२	बँक व्याज	१०००००	१२	संस्था हिस्सा	२२०००
				एकूण खर्च	५५२२७०
				शिल्लक	३४६५८११
	एकूण	४०१८०८१		एकूण	४०१८०८१

प्राचार्य


मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
 कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
 न.नेवसा, जि.अहमदनगर-४१४१०५

महाविद्यालयाचे नाव : कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई
विभागाचे नाव : यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक (M.B.A)
(दि.१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)

विद्यार्थी संख्या

वर्ष	अंदाजे प्रवेश
प्रथम	३०
द्वितीय	२५
एकूण	५५


अ.नं	जमा तपशिल	रक्कम	अ.नं	खर्चाचा तपशिल	रक्कम
१	आरंभीची शिल्लक	५०२८१५	१	सेवक मानधन	१५००००
२	१.रोख : १५००		२	प्रवास खर्च	२५००
३	२.बँक : ५०१३१५		३	ऑडीट फी	१७७०
५	विद्यार्थी एकूण प्रतिवर्ष फी	२१७५००	४	संगणक व प्रिंटर खरेदी खर्च	५००००
६	प्रथम वर्ष ३० X ३५००=१०५०००		५	फर्निचर खरेदी	१००००
७	द्वितीय वर्ष २५ X ४५००=११२५००		६	सॉफ्टवेअर खर्च	२०००
९	बँक व्याज	१५०००	७	कार्यालयिन स्टेशनरी	१००००
			८	अतीथी खर्च	३०००
			९	इंटरनेट खर्च	३०००
			१०	शिक्षकेतर मानधन	५०००
				एकूण खर्च	२३७२७०
				शिल्लक	४९८०४५
	एकूण	७३५३१५		एकूण	७३५३१५


प्राचार्य

मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
११, नेकासा, जि.अहमदनगर-४१४१०५

महाविद्यालयाचे नाव : कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
 अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ (दि.१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३)
 (यशवंत स्टीडी क्लब)

अ.न.	जमा तपशिल	रक्कम	अ.न.	खर्चाचा तपशिल	रक्कम
१	आरंभीची शिल्लक	१३३७८१	१	सेवक मानधन	४०००००
२	१.रोख : ००=००		२	बहिस्थ प्राध्यापक मानधन	१५००००
३	२.बँक : १३३७८१		३	संगणक दुरुस्ती खर्च	१५०००
४	रिडींग हॉल	४५००००	४	वर्तमान पत्रे	१००००
५	तासिका	२०००००	५	जाहिरात खर्च	२००००
६	टेस्ट	२००००	६	गंथालय पुस्तके	२००००
७	इतर अॅक्टीव्हिटी	१०००००	७	छपाई व स्टेशनरी खर्च	१००००
८	बँक व्याज	५०००	८	फर्निचर खरेदी	१००००
९	अंदाजपत्रकीय तुट	११३२१९	९	दुरुस्ती खर्च	३५००००
			१०	इंटरनेट खर्च	१००००
			११	विज बिल खर्च	९००००
			१२	स्वागत व सत्कार	१२०००
			१३	आकस्मित खर्च	५०००
			१४	सॉफ्टवेअर खर्च	१००००
				एकूण खर्च	१११२०००
				शिल्लक	०
	एकूण	१०२२०००		एकूण	१०२२०००


प्राचार्य
 मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे,
 कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
 ता.नेवसा, जि.अहमदनगर-४१४१०५



Mula Education Society's
ARTS, COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, SONAI
Tal. Newasa, Dist- Ahmednagar – 414105



Ph.: 02427-299384 Email: sonaicollege@yahoo.co.in, mesacsccollege@gmail.com Web.:www.acscollegesonai.edu.in
Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune (I.D.PU/AN/ASC/031/1989)
NAAC Re-accredited with 'A' Grade, DBT Star College Scheme, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 Certified, AISHE Code – C-42096

AUDIT REPORTS 2022-23

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT B.C.A. SECTION
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENTS		AMOUNT	AMOUNT
To	OPENING BALANCE			By	SALARY EXP.		1337503.00
	CASH IN HAND	1.00		"	BANK CHARGES		767.00
	Bank Of Mah.- 11767	684815.13		"	GROUP GRATUITY EXP		100000.00
	YESH MULTI STATE -167	1710849.00	2395665.13	"	P.F. MANAGEMENT SHARE		143324.00
				"	SOFTWARE EXP.		2000.00
"	FEES COLLECTION			"	DIWALI BONOUS		85842.00
	TUTION FEES	2637401.50		"	NET WORKING EXP.		70700.00
	ASHWAMEDH FEES	4710.00		"	REPAIR & MAINTAINANCE		267662.00
	LABORATORY FEES	1412640.00		"	AUDIT FEES		4130.00
	STUDENT INSURANCE FEES	2717.00					
	ADMISSION FEES	6060.00		BY	FEES PAID TO UNIVERSITY		
	DEVELOPMENT FUND	54336.00			SPORTS PRO-RETA EXP	1692.00	
	DISASTER MGT. FUND	3060.00			FEES REFUND	64050.00	
	GYMKHANA FEES	28100.00			UNIVERSITY PRO RETA FEE	58022.00	123764.00
	STUDENT AID FEES	3093.00					
	LIBRARY FEE	24993.00		"	LIBRARY BOOKS		34932.00
	REGISTRATITON FEES	9895.00		"	COMPUTER TABLE		91500.00
	PROJECT FEES	10977.00		"	INVERTOR & BATTERY		156000.00
	STUDENT WELFARE FUND	21015.00		"	OFFICE CHAIR		13860.00
	ELIGIBILITY FEES	65937.00		"	COMPUTER PURCHASE		1052800.00
	MEDICAL FEES	3475.00					
	COMPUTERISATION FEES	11865.00		BY	SALARY DEDUCTIONS		
	ONLINE ADMISSION FEES	22375.00			PROFESSION TAX	19875.00	
	STUDENT ACTIVITIES	161395.00			PROVIDENT FUND	143324.00	
	N.S.S. FEES	2025.00			STAFF LOAN	51000.00	
	PHYSICAL EDUCATION	5000.00			MULA BAZAR SONAI	72418.00	
	PARKING FEES	54750.00			OTHER DEDUCTION	3800.00	290417.00
	CARRIER GUIDANCE FEES	11157.00					
	BONAFIDE FEES	4460.00		"	SR. COLLEGE		956525.50
	CORPUS FUND FEES	232.00		"	P.G. SECTION		31668.00
	ENV. COURSE FEES	480.00		"	B.B.A. SECTIION		48681.00
	EQUIPMENT MAINT. CHARGE	100.00					
	SPORTS FEES	13600.00		"	BILLS PAYABLE		14091.00
	OTHER FEES	328574.50	4904423.00	"	SALARY ADVANCE (KUSALKAR P.M.)		5000.00
"	BANK INTEREST		111983.00				
				"	B.C. SCHOLARSHIP		699848.00
"	SALARY DEDUCTIONS			"	TDS		1911.00
	PROFESSION TAX	19875.00					
	PROVIDENT FUND	143324.00					
	STAFF LOAN	51000.00					
	MULA BAZAR SONAI	72418.00		"	CLOSING BALANCE		
	OTHER DEDUCTION	3800.00	290417.00		CASH IN HAND	1.00	
					Bank Of Mah.- 11767	196064.13	
"	SR. COLLEGE		59714.00		YESH MULTI STATE -167	2609424.00	2805489.13
"	P.G. SECTION		1911.00				
"	B.B.A. SECTION		36175.00				
"	SALARY ADVANCE (KUSALKAR P.M.)		5000.00				
"	B.C. SCHOLARSHIP		456525.50				
"	TDS		1911.00				
"	LIBRARY DEPOSIT		74690.00				
	TOTAL		8338414.63		TOTAL		8338414.63

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

PLACE : AURANGABAD



S.M.SHERKAR, M.NO.34617
 Firm Registration No.114098W

DATED : 26/05/2023

PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar


ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY DBT ACCOUNT
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENTS		AMOUNT	AMOUNT
To	OPENING BALANCE			By	BANK COMMISSION		441.91
	CASH IN HAND	93.00		"	AUDIT FEES		2360.00
	UBI - 9416	310763.92	310856.92				
"	BANK INTEREST		16321.00	"	STAFF ADVANCE		5000.00
"	STAFF ADVANCE		5000.00	By	CLOSING BALANCE		
					CASH IN HAND	93.00	
					UBI - 9416	324283.01	324376.01
	TOTAL		332177.92		TOTAL		332177.92

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT DBT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

EXPENDITURE		AMOUNT	AMOUNT	INCOME		AMOUNT	AMOUNT
TO	BANK COMMISSION		441.91	By	BANK INTEREST		16321.00
"	AUDIT FEES		2360.00				
TO	DEPRECIATION		186880.00	"	DEFICIT		173360.91
	TOTAL		189681.91		TOTAL		189681.91

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS



S.M.SHERKAR, M.NO. 34617
 Firm Registration No. 114098W

PLACE : AURANGABAD

DATED : 26/05/2023



PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY P.G. SECTION
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENTS		AMOUNT	AMOUNT
To	OPENING BALANCE			By	SALARY EXPENSES		4249427.00
	CASH IN HAND	2192.00		"	REMUNERATION		862341.00
	UBI - 9417	577836.23		"	FEES REFUND		76394.00
	YESH MULTI STATE -165	3373104.00		"	GROUP GRATUITY EXP.		150000.00
	SBI - 19668 SONAI	139730.83	4092863.06	"	P.F. MANAGEMENT SHARE		518700.00
"	FEES COLLECTION			"	P.F. ADMIN CHARGES		36847.00
	TUTION FEES	9393961.95		"	SOFTWARE EXP		2000.00
	ADMISSION FEES	12880.00		"	BANK COMMISSION		2592.80
	ASHWAMEGH FEES	6640.00		"	TRAVELLING EXP.		2320.00
	LABROTARY FEES	842329.00		"	INSTITUTIONS INNOVATION COUNCIL		20500.00
	LIBRARY FEES	71052.00		"	INTERNET CHARGES		8806.00
	DEVELOPMENT FUND FEES	33117.00		"	JOURNAL EXP.		506861.00
	STUDENT AID FUND	5355.00		"	WEBSITE EXP.		23242.51
	INSURANCE FEES	3541.00		"	YASH INCUBATION CENTRE EXP.		28180.00
	STUDENT WELFARE FUND	18584.00		"	PRINTING & STATIONERY EXP.		196093.00
	COMPUTERIZATION FEES	13932.00		"	PROFESSIONAL FEES		17850.00
	DISASTER MGT. FUND	4630.00		"	REFRESHMENT EXP.		37704.00
	ELIGIBILITY FEES	141538.00		"	REPAIR & MAINT. EXP.		597039.00
	GYMKHANA FEES	43820.00		"	ZOOM SOFTWARE EXP.		15576.00
	MEDICAL FEES	11691.00		"	TELEPHONE EXP.		24135.00
	REGISTRATITON FEES	14250.00		"	DIWALI BONOUS EXP.		375994.00
	OTHER FEES	3443976.00		"	CULTURAL PROGRAMME EXP.		68000.00
	STUDENT ACTIVITY FEES	205122.00		"	ANNUAL GATHERING EXP.		4800.00
	ENVIROMENT COURSE FEES	5100.00		"	BOTNICAL GARDEN EXP.		172437.00
	ONLINE ADMISSION FEES	72850.00		"	BUILDING COLOUR EXP.		306055.00
	SKILL BASE FEES	481130.00		"	BUILDING STRUCTURAL AUDIT EXP.		47000.00
	NSS FEES	2370.00		"	COMPUTER EXP.		292435.00
	CARRIER GUIDANCE	7200.00		"	DRINKING WATER EXP.		34290.00
	PHYSICAL EDUCATION FEES	3400.00		"	ELECTRIC EXP.		336125.00
	EQUIPMENT MAINT.FEES	240016.00		"	ENVIRONMENT AUDIT EXP.		59000.00
	PARKING FEES	186564.00		"	FURNITURE REPAIR		333740.00
	SUB OF THESIS FEES	23650.00		"	ISO 4002015 AUDIT EXP		66080.00
	BONAFIDE FEES	14900.00		"	LABORATORY EXP.		2886.00
	CORPUS FUND FEES	288.00		"	LIGHT BILL EXP.		72346.00
	PROJECT WORK FEES	22060.00		"	NAAC EXP.		94400.00
	SUB OF SYNOPSI FEES	4195.00		"	NATIONAL EDUCATION REG. EXP.		6152.22
	COURSE WORK FEES	7000.00		"	PARISAR SWACHATA EXP.		21300.00
	PRO. ADMISSION FEES	3670.00		"	P.HD. STUDENT UNIVERSITY SHARE		130000.00
	REGISTRATITON FOR UNIVERSIT	4000.00		"	SPORTS EXP.		53420.00
	VIVA VOCE FEES	20000.00		"	AUDIT FEES		4130.00
	SPORTS FEES	25900.00	15390711.95				
				"	FEES PAID TO UNIVERSITY		
					SPORTS PRO-RETA FEES	7020.00	
					UNIVERSITY PRO-RETA FEES	222250.00	229270.00
"	BANK INTEREST		87589.00	"	LIBRARY BOOKS		20033.00
				"	FURNITURE (BENCHES)		361000.00
				"	CCTV		443433.00
				"	GEOGRAPHY EQUIPMENT		290000.00
				"	INVERTOR & BATTERY		313925.00
				"	WEB CAMERA		27000.00
				"	SPORTS EQUIPMENT		99000.00
	PAGE TOTAL		19571164.01		PAGE TOTAL		11640859.53



PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY P.G. SECTION
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENTS	
				AMOUNT	AMOUNT
TOTAL FROM PAGE NO. 1			19571164.01	TOTAL FROM PAGE NO. 1	11640859.53
" SALARY DEDUCTION				" SALARY DEDUCTIONS	
PROFESSION TAX	42400.00			PROFESSION TAX	42400.00
PROVIDEND FUND	482564.00			PROVIDEND FUND	482564.00
MULA BAZAR	38396.00			MULA BAZAR	38396.00
STAFF LOAN	51000.00			STAFF LOAN	51000.00
LIC	840.00			LIC	840.00
OTHER DEDUCTION	13800.00	629000.00		OTHER DEDUCTION	13800.00
					629000.00
" INTER UNIT ADVANCE				" INTER UNIT ADVANCE	
SR. COLLEGE	24810225.00			" SR. COLLEGE	22414044.95
B.B.A SECTION	0.00			" B.B.A SECTION	2500.00
B.C.A SECTION	31668.00			" B.C.A SECTION	1911.00
U.G.C. SECTION	3000000.00			" B.VOC. SECTION	0.00
YASHWANT STUDY CLUB	3196.00	27845089.00		YASHWANT STUDY CLUB	5925.00
				" ANAMAT - M.E.S.	5000000.00
					27424380.95
" B.B.A. - P.F.		245274.00		" B.B.A. - P.F.	245274.00
" B.C.A. - P.F.		286648.00		" B.C.A. - P.F.	286648.00
" B.VOC. P.F.		245280.00		" B.VOC. P.F.	245280.00
" D.VOC. P.F.		6720.00		" D.VOC. P.F.	6720.00
" B.B.A. - P.T.		17175.00		" B.B.A. - P.T.	17175.00
" B.C.A. - P.T.		21850.00		" B.C.A. - P.T.	21850.00
" B. VOC. P.T.		12900.00		" B. VOC. P.T.	12900.00
" BILLS PAYABLE		0.00		" BILLS PAYABLE	994342.00
" B.C. SCHOLARSHIP		7303281.95		" B.C. SCHOLARSHIP	12292670.95
" LIBRARY DEPOSIT		400578.00		" LIBRARY DEPOSIT	46000.00
" SALARY ADVANCE		42000.00		" SALARY ADVANCE	22000.00
" STAFF ADVANCE		460120.00		" STAFF ADVANCE	35000.00
" FIRM ADVANCE		592144.00		" FIRM ADVANCE	1259000.00
" CHB STAFF ADVANCE		420640.00		" CHB STAFF ADVANCE	1467772.00
" T.D.S.		91702.00		" T.D.S.	91151.00
				" CLOSING BALANCE	
				CASH IN HAND	2192.00
				UBI - 9417	544194.23
				YESH MULTI STATE -165	817622.00
				SBI - 19668 SONAI	89534.30
					1453542.53
GRAND TOTAL		58191565.96		GRAND TOTAL	58191565.96

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

Sherkar

S.M.SHERKAR, M. NO. 34617
 Firm Registration No. 114098W

PLACE : AURANGABAD

DATED : 25/05/2023



PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY U.G.C. SECTION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENTS		AMOUNT	AMOUNT
To	OPENING BALANCE			By	SALARY EXP.		2625776.00
	CASH IN HAND	351.00		"	REM. EXP. (B.VOC.)		96000.00
	BANK OF MAH. - 744	9129763.50		"	REM. EXP. (ADD COURSE)		228067.00
	YESH MULTI STATE -2710	327024.00		"	BANK CHARGES		731.60
	BANK OF MAH. - 154	1088073.54	10545212.04	"	SALARY EXP. (D.VOC.)		28000.00
				"	TRANSPORT EXP.		1250.00
TO	GRANT			"	QUALITY IMPROVEMENT SEMINAR		110193.00
	QUALITY IMPROVEMENT SEMINAR		26800.00	"	SOFTWARE EXP.		2000.00
				"	CERTIFICATE EXP. (UTILIZATION)		14160.00
TO	FEES COLLECTION			"	P.F. MANAGEMENT SHARE (D.VOC.)		3360.00
	ADMISSION FEES	1200.00		"	P.F. MANAGEMENT SHARE		122640.00
	TUTION FEES	71870.00		"	UNIVERSITY PRO-RETA EXP.		19692.00
	STUDENT WELFARE FUND	3000.00		"	TRAVELLING EXP. (B.VOC.)		15520.00
	LIBRARY FEES	5800.00		"	PRACTICAL EXP. (B.VOC.)		63915.00
	GYMKHANA FEES	6220.00		"	ADVERTISEMENT EXP.		6560.00
	ELIGIBILITY FEES	17720.00		"	FEES REFUND		8802.00
	MEDICAL FEES	3790.00		"	PRINTING & STATIONERY (B.VOC.)		30305.00
	DEVELOPMENT FEES	7875.00		"	DIWALI BONOUS EXP.		39200.00
	STUDENT AID FUND	630.00		"	REM. EXP. (GUEST LECTURE)		1000.00
	REGISTRATION FEES	1575.00		"	INDUSTRIAL FIELD VISIT EXP.		44780.00
	LABORATORY FEES	27840.00		"	INSTITUTIONS INNOVATION COUNCIL		4384.00
	STUDENT ACITVITY FEES	3090.00		"	PROFESSIONAL FEES		8500.00
	STUDENT INSURANCE	7300.00		"	AUDIT FEES		4130.00
	ASHWAMEGH CONTRIBUT	2300.00					
	DISTER MANAGEMENT FU	1520.00		"	FURNITURE		19700.00
	PARKING FEES	3250.00					
	COMPUTERISATION FEES	2250.00		"	SALARY DEDUCTION		
	ONLINE ADMISSION FEES	7840.00			PROVIDEND FUND	122640.00	
	PHYSICAL EDUCATION FE	4150.00			PROVIDEND FUND (D.VOC.)	3360.00	
	NSS FEES	820.00			STAFF LOAN	4000.00	
	EQUIPMENT CHARGES FEE	41580.00			PROF. TAX	12900.00	
	CARRIER ORIENTED COUP	2490400.00	2712020.00		OTHER DEDUCTION	2600.00	145500.00
"	INDOOR STEDIUM RENT		15500.00	"	INTER UNIT ADVANCE		
					SENIOR COLLEGE	0.00	
To	BANK INTEREST		200621.00		P.G. SECTION	3005750.00	
					B.B.A. SECTION	1000000.00	4005750.00
To	SALARY DEDUCTION						
	PROVIDEND FUND	122640.00		"	BILLS PAYABLE		215364.00
	PROVIDEND FUND (D.VOC)	3360.00		"	STAFF ADVANCE		100000.00
	STAFF LOAN	4000.00		"	SEMINAR & WORKSHOP EXP.		106029.00
	PROF. TAX	18650.00					
	OTHER DEDUCTION	2600.00	151250.00	"	CLOSING BALANCE		
					CASH IN HAND	351.00	
To	INTER UNIT ADVANCE				BANK OF MAH. - 744	4782939.70	
	SENIOR COLLEGE	19692.00			YESH MULTI STATE -2710	503602.00	
	P.G. SECTION	0.00			BANK OF MAH. - 154	648594.74	5935487.44
	B.B.A. SECTION	0.00	19692.00				
To	BILLS PAYABLE		106029.00				
To	STAFF ADVANCE		110193.00				
To	LIBRARY DEPOSIT		13450.00				
To	SEMINAR & WORKSHOP		106029.00				
			14006796.04				14006796.04

As per our report of even date
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

PLACE : AURANGABAD

DATED : 26/05/2023



S.M.SHERKAR, M.NO. 34617
 Firm Registration No.114098W

PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Kewasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

YASHWANT STUDY CLUB

RECEIPT		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT	AMOUNT
To	Opening Balance			By	Swagat & Satkar Exp.		700.00
	Cash on Hand	0.00		"	Bank Commission		100.00
	Yesh Musti State - 1934	133781.00	133781.00	"	Remuneration		234000.00
				"	Water Exp.		71380.00
To	Fees Collection			"	Computer & Maint. Exp.		20420.00
	Reading Hall Fees	503400.00		"	Telephone Exp.		4116.00
	M.P.S.C. Fees	0.00		"	Printing & stationery		6512.00
	Competitive exam fees	0.00	503400.00	"	Newspaper exp		15400.00
				"	Electric Exp.		5540.00
"	Bank Interest		4964.00	"	Transport Exp.		150.00
				"	Cleaning Exp.		19025.00
"	TDS		2320.00	"	Building Structural Audit		23203.00
"	Library Deposit		500.00	"	Fuel Exp.		440.00
				"	Garden Exp.		49115.00
"	P.G. Section		5925.00	"	Light Bill Exp.		28510.00
				"	Repair & Maint. Exp.		146529.00
				"	Audit fees		1180.00
				"	TDS		2320.00
				"	Library Deposit		500.00
				"	P.G. SECTION		3196.00
				"	Closing Balance		
					Cash on Hand	0.00	
					Yesh Musti State - 1934	18554.00	18554.00
	TOTAL		650890.00		TOTAL		650890.00

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

EXPENDITURE		AMOUNT	AMOUNT	INCOME		AMOUNT	AMOUNT
To	Swagat & Satkar Exp.		700.00	BY	Fees Collection		
"	Bank Commission		100.00		Reading Hall Fees	503400.00	
"	Remuneration		234000.00		M.P.S.C. Fees	0.00	
"	Water Exp.		71380.00		Competitive exam fees	0.00	503400.00
"	Computer & Maint. Exp.		20420.00				
"	Telephone Exp.		4116.00				
"	Printing & stationery		6512.00	BY	Bank Interest		4964.00
"	Newspaper exp		15400.00				
"	Electric Exp.		5540.00				
"	Transport Exp.		150.00	BY	Deficit		
"	Cleaning Exp.		19025.00				135404.00
"	Building Structural Audit		23203.00				
"	Fuel Exp.		440.00				
"	Garden Exp.		49115.00				
"	Light Bill Exp.		28510.00				
"	Repair & Maint. Exp.		146529.00				
"	Audit fees		1180.00				
"	Depreciation		17448.00				
	TOTAL		643768.00		TOTAL		643768.00

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

PLACE : AURANGABAD



S.M.SHERKAR, M.NO.34617
 Firm Registration No.114098W

DATED : 26/05/2023

PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY
YESHWANTRAO CHAVAN MAHARASHTRA OPEN UNIVEF (BA/B.COM)
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023


RECEIPT		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT	AMOUNT
To	Opening Balance			By	Principal Remuneration		20361.00
	Cash on Hand	0.00		"	Peon Remuneration		16659.00
	Bank of Maharashtra	3459331.00	3459331.00	"	Administration Rem.		111741.00
				"	Assignment Rem.		166525.00
"	University Grant		69117.00	"	Eligibility Rem.		30850.00
				"	Office Exp.		48800.00
"	Fees Collection		407900.00	"	Exam Remuneration		69117.00
				"	Bank Charges		1888.00
				"	Travelling Exp.		1060.00
"	Bank Interest		99140.00	"	Building Rent		18510.00
				"	Audit Fees		1770.00
				"	Closing Balance		
					Cash on Hand	0.00	
					Bank of Maharashtra-11	3548207.00	3548207.00
	Total		4035488.00		Total		4035488.00

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

EXPENDITURE		AMOUNT	INCOME		AMOUNT	AMOUNT
To	Principal Remuneration	20361.00	BY	University Grant		69117.00
"	Peon Remuneration	16659.00				
"	Administration Rem.	111741.00	BY	Fees Collection		407900.00
"	Assignment Rem.	166525.00				
"	Eligibility Rem.	30850.00				
"	Office Exp.	48800.00	BY	Bank Interest		99140.00
"	Exam Remuneration	69117.00				
"	Bank Charges	1888.00				
"	Travelling Exp.	1060.00				
"	Building Rent	18510.00				
"	Audit Fees	1770.00				
"	Depreciation	17318.00				
"	Surplus	71558.00				
	Total	576157.00		Total		576157.00

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

PLACE : AURANGABAD



DATE :- 26/05/2023

S.M.SHERKAR, M.NO. 34617
 Firm Registration No. 114098W



PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY
 YESHWANTRAO CHAVAN MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY NASHIK (MBA)
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPT		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT	AMOUNT
To	Opening Balance			By	Teacher Remuneration		49310.00
	Cash on Hand	1500.00		"	Clerk Remuneration		5000.00
	Bank of Maharashtra- 1744	501315.00	502815.00	"	Project Guide Rem.		9900.00
				"	Administration Rem .Exp.		22814.00
				"	Assignment Rem .Exp.		57900.00
To	Fees Collection		115500.00	"	Bank Charges		236.00
				"	Audit Fees		1770.00
"	Bank Interest		14074.00	By	Closing Balance		
					Cash on Hand	1500.00	
					Bank of Maharashtra- 1744	483959.00	485459.00
	Total		632389.00		Total		632389.00

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

EXPENDITURE		AMOUNT	AMOUNT	INCOME		AMOUNT	AMOUNT
To	Teacher Remuneration		49310.00	BY	Fees Collection		115500.00
"	Clerk Remuneration		5000.00				
"	Project Guide Rem.		9900.00				
"	Administration Rem .Exp.		22814.00	BY	Bank Interest		14074.00
"	Assignment Rem .Exp.		57900.00				
"	Bank Charges		236.00	BY	Deficit		17356.00
"	Audit Fees		1770.00				
	Total		146930.00		Total		146930.00

PLACE : AURANGABAD

DATE :- 26/05/2023



AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

S.M.SHERKAR, M.NO.34617
 Firm Registration No.114098W

PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SONAI
 RUN BY MULA EDUCATION SOCIETY
 YESHWANTRAO CHAVAN MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY NASHIK (MBA)
 RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPT		AMOUNT	AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT	AMOUNT
To	Opening Balance			By	Teacher Remuneration		49310.00
	Cash on Hand	1500.00		"	Clerk Remuneration		5000.00
	Bank of Maharashtra- 1744	501315.00	502815.00	"	Project Guide Rem.		9900.00
				"	Administration Rem .Exp.		22814.00
				"	Assignment Rem .Exp.		57900.00
To	Fees Collection		115500.00	"	Bank Charges		236.00
				"	Audit Fees		1770.00
"	Bank Interest		14074.00	By	Closing Balance		
					Cash on Hand	1500.00	
					Bank of Maharashtra- 1744	483959.00	485459.00
	Total		632389.00		Total		632389.00

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
 FOR THE PERIOD 01.04.2022 TO 31.03.2023

EXPENDITURE		AMOUNT	AMOUNT	INCOME		AMOUNT	AMOUNT
To	Teacher Remuneration		49310.00	BY	Fees Collection		115500.00
"	Clerk Remuneration		5000.00				
"	Project Guide Rem.		9900.00				
"	Administration Rem .Exp.		22814.00	BY	Bank Interest		14074.00
"	Assignment Rem .Exp.		57900.00				
"	Bank Charges		236.00	BY	Deficit		17356.00
"	Audit Fees		1770.00				
	Total		146930.00		Total		146930.00

PLACE : AURANGABAD

DATE :- 26/05/2023



AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
 FOR S.M.SHERKAR & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS

S.M.SHERKAR, M.NO.34617
 Firm Registration No.114098W

PRINCIPAL
 Mula Education Society's
 Arts, Commerce & Science College, Sonai
 Tal. Newasa, Dist. Ahmednagar